



संतकबीरनगर पुलिस



जनपद - संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 07-04-2021

आज दिनांक 07.04.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर डा0 कौस्तुभ के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना धनघटा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1486 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल व्यक्ति को पहुंचाया गया अस्पताल – पीआरवी 1486 को थाना दुधारा क्षेत्रान्तर्गत पेट्रोल पंप दुधारा से इवेन्ट संख्या 03186 से कालर मार्ग दुर्घटना में दो व्यक्तियों के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा 02 मिनट में घटनास्थल पर पहुंचकर दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को इलाज हेतु पीआरवी वाहन से प्रा0 स्वा0 केन्द्र सेमरियावां पहुंचाया गया तथा दुर्घटना के संबन्ध में थाना दुधारा को बताया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाई गयी । जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 श्यामसुन्दर मिश्र, मु0आ0 हरिनारायण मिश्र, हो0चा0 बृजेश यादव ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 69 वाहनो से 51000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया
आज दिनांक 07.04.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 69 वाहनो से 51000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया



@santkabirnapol



Pro Cell Santkabirnapol

सोशल मीडिया सेल
संतकबीरनगर